

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 1968/अश्विन 11, 1890

No. 360] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 1968/ASVINA 11, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1968

S. O. 3502.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/68-VIII (S.O. 2960), dated the 31st August, 1968, namely:—

- (a) in Table 2, against "Kerala", after the entries "2. Kerala Congress.... Horse" the entries "3. Revolutionary Socialist Party.. Spade and Stoker" shall be inserted;
- (b) in Table 3, against "7. Kerala", the entry "(5) Spade and Stoker" shall be deleted and for the brackets and figure "(6)" the brackets and figure "(5)" shall be substituted.

[No. 56/68-IX.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN. Secy.

